

Lektion 31: Hast du schon zu Mittag gegessen?

Hast du schon zu Mittag gegessen?

क्या आपने लंच कर लिया है?

kya aapane lanch kar liya hai?

Nein, ich habe noch nicht gegessen.

नहीं, मैंने अभी तक नहीं खाया है।

nahin, mainne abhee tak nahin khaaya hai.

Ich habe vor einer Stunde zu Mittag gegessen.

मैंने एक घंटे पहले दोपहर का खाना खाया था।

mainne ek ghante pahale dopahar ka khaana khaaya tha.

Was hast du gegessen?

आपने क्या खाया?

aapane kya khaaya?

Ich habe Fisch gegessen.

मैंने मछली खाई।

mainne machhalee khaee.

Frühstückst du jeden Tag?

क्या आप रोज नाश्ता करते हैं?

kya aap roj naashta karate hain?

Ja, ich frühstücke jeden Tag.

हाँ, मैं रोज नाश्ता करता हूँ।

haan, main roj naashta karata hoon.

Ich bin hungrig.

मुझे भूख लगी है।

mujhe bhookh lagee hai.

Ich habe Durst.

मुझे प्यास लग रही है।

mujhe pyaas lag rahee hai.